

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-09.09.2021

अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का 02 शातिर सदस्य थाना डिबाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 स्कूटी जुपिटर व चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई श्री सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई श्री सुभाष सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2021 को थाना डिबाई पुलिस भीमपुर दौराहे पर बैरियर लगाकर तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 02 शातिर वाहन चोर चोरी की स्पलेंडर मोटर साइकिल पर सवार होकर अनूपशहर की तरफ से भीमपुर दौराहे की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर इस सूचना पर पुलिस टीम सतर्कता से चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद दो व्यक्ति 01 स्पलेंडर मोटरसाइकिल पर सवार आते दिखाई दिये जो पुलिस टीम के देखकर मोटरसाइकिल को पीछे मोडकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर मोटर साइकिल सवार दोनो अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 02.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा अभियुक्तों की निशांदाही पर चोरी की 06 अन्य मोटरसाइकिलों को धर्मपुर रोड पर सकीरगंज की पुरानी कोठी के अन्दर से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रवि प्रजापति पुत्र राकेश निवासी ग्राम मलकपुर थाना अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर।
2. ललित पुत्र नानक चन्द निवासी ग्राम दौका थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. एक मोटर साइकिल स्पलेंडर यूपी-13एसी 3425(थाना डिबाई क्षेत्र से चोरी)
2. एक मोटर साइकिल पैशन यूपी-81एवाई 5956(असली नम्बर- यूपी-81 एवाई 6956)
3. एक मोटर साइकिल स्पलेंडर प्रो यूपी-81एवाई 9062
4. एक स्कूटी जुपिटर एचआर-26डीएफ 1588(थाना पालन विहार जनपद गुडगांव हरियाणा से चोरी)
5. एक मोटर साइकिल स्पलेंडर यूपी-13एई 6193(असली नम्बर- यूपी-81 बीसी 9313)
6. एक मोटर साइकिल स्पलेंडर बिना नम्बर
7. एक मोटर साइकिल सिटी-100 बिना नम्बर(असली नम्बर-यूपी-81बीएस 3768)(जनपद अलीगढ से चोरी)
8. 02 चाकू

अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर हैं जिनके द्वारा बरामद मोटर साइकिल स्पलेंडर यूपी-13 एसी 3425 को दिनांक 06-08-2021 को थाना डिबाई क्षेत्र महादेव चौराहे के पास से चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मुअसं-523/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा बरामद स्कूटी जुपिटर एचआर-26 डीएफ 1588 को थाना पालन विहार जनपद गुडगांव हरियाणा चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना पालन विहार पर मुअसं-534/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल सिटी-100 बिना नम्बर (असली नम्बर-यूपी-81 बीएस 3768) व स्पलेंडर बिना नम्बर को जनपद अलीगढ से चोरी करना बताया है। शेष अन्य मोटर साइकिलों को विभिन्न जनपदों/स्थानों से चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों द्वारा मोटर साइकिलों को चोरी कर उनपर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर आस-पास क्षेत्र में बेच दिया जाता था।

अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-78/20 धारा 420,414,413 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ।
2. मुअसं-534/20 धारा 379,411 भादवि थाना पालन विहार जनपद गुडगांव हरियाणा।
3. मुअसं-107/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।
4. मुअसं-108/21 धारा 414,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।
5. मुअसं-523/21 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-525/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 379,420,411,414 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-526/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त ललित का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-534/20 धारा 379,411 भादवि थाना पालन विहार जनपद गुडगांव हरियाणा।
2. मुअसं-523/21 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-525/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 379,420,411,414 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-527/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-525/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 379,420,411,414 भादवि मुअसं-526 व 527/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री सुभाष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ०नि० रुस्तम सिंह, उ०नि० अमित कुमार
3. है०का० संजय शर्मा, का० दीपक पुंडीर, का० आशु धामा, का० अनुभव कुमार, है०का० चालक ब्रजराज सिंह।